



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203]

नई दिल्ली, बुधवार जुलाई 5, 1978/आषाढ़ 14, 1900

No. 203]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1978/ASADHA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1978

सीमा-शुल्क

सां० कां० नि० 356(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 105-सीमाशुल्क तारीख 16 मई, 1978 को अधिश्रुत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु को, जब किसी व्यक्ति द्वारा उनका आयात भारत में उसके निवास स्थान के लिए वास्तविक स्थानान्तरण होने पर उसके यात्री सामान (बैगज) के भाग के रूप में किया जाता है:-

(क) उन पर उद्ग्रहणीय उस सम्पूर्ण सीमाशुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक है;

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:-

(i) ऐसे व्यक्ति ने निवास स्थान के स्थानान्तरण के ठीक पूर्ववर्ती कम से कम दो वर्षों की अवधि तक विदेश में निवास किया

था और कम से कम एक वर्ष तक ठहरने के लिए अपना निवास स्थान भारत को स्थानान्तरित कर रहा है;

(ii) ऐसा व्यक्ति घोषणा द्वारा यह अभिप्रेष्ट करता है कि ऐसा माल न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक उसके या उसके कुटुम्ब के कब्जे और उपयोग में रहा है तथा माल की परीक्षा करने और अनुवर्ती परिस्थितियों से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है;

(iii) ऐसा माल का विषय संप्रदर्शन या विज्ञापन या विषय के लिए उसका प्रस्तुत करना तब तक नहीं होगा जब तक उसकी बाजार कीमत में उस बाजार कीमत के, जब वह माल नया था, 50 प्रतिशत से कम अवक्षयण न हो गया हो; और

(iv) यात्री के साथ न आने वाला माल, यात्री सामान नियम, 1978 में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के भीतर नौभारित या प्रेषित कर दिया गया था या पहुँचा गया था।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए:-

(क) सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त दो वर्षों की अवधि के दौरान भारत में प्रत्यक्ष आगमनों की, यदि कोई हो, उपेक्षा कर दी जाएगी यदि इन आगमनों पर ठहराव की कुल अवधि छह मास से अधिक नहीं है;

परन्तु सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पर्याप्त हेतुक दशित किए जाने पर सीमाशुल्क कलक्टर भारत में छह मास से अधिक के ठहराव की अवधि को माफ कर सकेगा।

(ख) विदेश में किसी व्यक्ति के ठहराव में दो मास की अवधि की कमी को सहायक सीमाशुल्क कलक्टर माफ कर सकेगा, यदि

उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति को भारत को समय से पूर्व वापसी उसके द्वारा सेवान्त छुट्टी या भवकाश के उपभोग के कारण या किन्हीं अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण है।

सारणी

क्रम संख्या	वस्तु का वर्णन	प्रतिशत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	घरेलू रेफ्रिजरेटर जिनकी क्षमता 100 लिटर से अधिक हो	15 प्रतिशत
2.	घरेलू रेफ्रिजरेटर जिनकी क्षमता 100 लिटर से अधिक हो किन्तु 165 लिटर से अधिक हो।	20 प्रतिशत
3.	अन्य घरेलू रेफ्रिजरेटर	40 प्रतिशत
4.	डीप फ्रीजर	40 प्रतिशत
5.	वातानुकूल (एअर कण्डीशनर)	50 प्रतिशत

[सं० 131 सीमाशुल्क/फा० सं० 497/6/78—सीमाशुल्क-6]

प्रान्त्य बोर्डिया, भवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 105-Customs dated the 16th May, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto, when imported by any person as part of his baggage on a bonafide transfer of residence to India, from—

(a) the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, (51 of 1975); and

(b) so much of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the rates specified in the corresponding entry in Column (3) of the

said Table, subject to the following conditions, namely :—

- such person has been residing abroad for a minimum period of 2 years immediately preceding the transfer of residence and is transferring his residence to India for a minimum stay of one year;
- such person affirms by a declaration that goods have been in his or his family's possession and use for a minimum period of one year and examination of the goods and attendant circumstances do not indicate to the contrary;
- such goods shall not be sold, displayed or advertised or offered for sale until their market price has depreciated to less than 50 per cent of the market price when new; and
- the goods not accompanying the passenger were shipped or despatched or arrived within the time limits specified in the Baggage Rules, 1978.

EXPLANATION.—for the purposes of this notification—

- short visits, if any made by the persons concerned to India during the aforesaid period of 2 years shall be ignored if the total duration of stay on these visits does not exceed six months:

Provided that on sufficient cause being shown by the person concerned, the Collector of Customs may condone the period of stay in India in excess of six months;

- shortfall upto a period of two months in a person's stay abroad may be condoned by the Assistant Collector of Customs if he is satisfied that the person's early return to India had been caused by his availing of the terminal leave or vacation or by any other special circumstances.

TABLE

Serial No.	Description of article	Rate of additional duty
(1)	(2)	(3)
1.	Domestic refrigerators capacity not exceeding 100 litres.	15%
2.	Domestic refrigerators capacity exceeding 100 litres but not exceeding 165 litres.	2%
3.	Other domestic refrigerators.	40%
4.	Deep Freezes	40%
5.	Air Conditioners	50%

[No. 131-Cus/F.No. 497/6/78-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.